

Report on National Webinar on ‘Some Conscious Reflections on the Conscious and Unconscious in Poetry’
Held on – 24th June 2021

Date of Event	24.06.2021
Name and Type of Event	National Webinar on ‘Some Conscious Reflections on the Conscious and Unconscious in Poetry’
Conducted by	Dr. Manoj Kumar Pathak
No. Of Participant	100

Through language the poet expresses the feelings of his conscious and unconscious mind. The poet expresses the inner-mental feelings of a character or himself with a special pattern of words, which is a mixed expression of conscious and unconscious mind. Poets have been successful in many ways in expressing the feelings buried in the unconscious mind by using their mental acumen properly, said Dr. Rajiv S Dayal, former Head of the Department of English, Kolhan University, as a guest speaker in a virtual webinar organized by the Department of English, Arka Jain University (AJU) on the topic 'Some Conscious Reflections on the Conscious and Unconscious in Poetry'. He made it clear by citing many examples of English poems that the reader needs to be equipped psychologically with many surfaces and perspectives to fully understand poetry.

Dr. Manoj Kumar Pathak, the event-coordinator and moderator of the said webinar, said that poetry expresses the truth to be felt and it can be understood keeping in mind the effect of human traits in understanding life.

Earlier to it, the Head of English Department of AJU, Prof. Rajkumari Ghosh congratulated the faculty members of the department and the participants. Dr. Rupa Sarkar gave the welcome address and Ms. Shahin Fatma proposed the vote of thanks. In the said virtual seminar, students, researchers and professors from various colleges and universities of the city and the country joined.

E-poster

**ARKA JAIN University**
Jharkhand (Jamshedpur)

Department of English
ORGANIZES A WEBINAR ON

Some Conscious Reflections on the Conscious and Unconscious in Poetry

 24th June 2021

 05 PM Onwards

 Google meet

Event Coordinator & Moderator:
Dr. Manoj K Pathak

Program Coordinator:
Ms. Rajkumari Ghosh

**Dr. Rajiv S. Dayal**

Ex-HoD, Department of English and Cultural Studies
Kolhan University, Chaibasa.

Screenshots



भाषा के जरिये अपनी भावनाएं व्यक्त करता है कवि

अरका जैन यूनिवर्सिटी में वेबिनार

जमशेदपुर. भाषा के माध्यम से कवि अपनी चेतन और अचेतन भावनाएं व्यक्त करता है. किसी चरित्र या खुद के आंतरिक-मानसिक अनुभूतियों को कवि शब्दों के खास पैटर्न से उद्घाषित करता है, जो चेतन और अचेतन का मिश्रित उद्गार है. उक्त बातें 'सम कॉन्सिडियस रेफ्लेक्शंस ऑन द कॉन्सिडियस एंड अनकॉन्सिडियस इन पोएट्री' विषय पर अरका जैन यूनिवर्सिटी (एजेयू) के अंग्रेजी विभाग की ओर से आयोजित एक वर्चुअल मीट में बतौर मुख्य वक्ता कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ राजीव दयाल ने कही. उन्होंने अंग्रेजी



कविताओं के कई उदाहरण प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि कविता को पूर्ण रूप से समझने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी कई सतहों और दृष्टिकोणों से पाठक

को लैस होने की जरूरत है. संगोष्ठी के समन्वयक व संचालक डॉ मनोज कुमार पाठक ने कहा कि कविता महसूस किये जाने वाले सत्य को उद्घाषित करती है. इससे पहले एजेयू के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो राजकुमारी घोष ने विषय प्रवेश करवाया एवं स्वागत भाषण डॉ रूपा सरकार ने दिया. धन्यवाद ज्ञापन प्रो शाहीन फातमा ने दिया. उक्त संगोष्ठी में शहर के साथ ही देशों के विभिन्न कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्र, रिसर्चर व शिक्षक जुड़े थे.